

व्यवसायों और स्थानों के लिए चरण 5 के मार्गदर्शन

यह मार्गदर्शन, राज्य की इलिनॉय बहाली (रेस्टोर इलिनॉय) योजना के एक हिस्से के रूप में वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विकास द्वारा प्रकाशित उद्योग विशिष्ट मार्गदर्शन की जगह लेता है। इस मार्गदर्शन में, स्वास्थ्यप्रद परिवेश और परिचालन को बनाए रखने के साथ-साथ कोविड-19 के फैलने के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए सभी प्रकार के व्यवसायों और स्थानों, ग्राहकों, और कर्मचारियों के लिए दिए गए सुझाव शामिल हैं।

नीचे सुझाई गई रोकथाम रणनीतियां दी गई हैं जो यह मानती हैं कि जबकि इलिनॉय राज्य ने अपने निवासियों को वैक्सीन देने के मामले में काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई लोग अपात्र बने हुए हैं या उन्होंने अभी तक वैक्सीन लेने का विकल्प नहीं चुना है। रोकथाम रणनीतियों के लगातार उपयोग से COVID-19 के प्रसार को कम करने और ग्राहकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों सहित उन लोगों की रक्षा करने में मदद मिलेगी, जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है। हमेशा की तरह, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय नगरपालिकाओं को जो उपयुक्त लगता है उसके अनुसार आतिरिक्त रोकथाम रणनीतियां लागू करने का चयन कर सकती हैं।

- COVID-19 के टीके सुरक्षित, प्रभावी और पूरे इलिनॉय में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। 12 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों का जल्द से जल्द COVID-19 के खिलाफ **टीकाकरण** किया जाना चाहिए ताकि COVID-19 को होने और/या फैलने से रोका जा सके।
- जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्थानों में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने **पूरी तरह वैक्सीन ले ली** है, उन जगहों पर राज्य के अनुसार फेस कवरिंग पहनने और अंदरूनी और बाहरी सेटिंग्स में सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। व्यवसायों और नगरपालिकाओं को फेस कवरिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता जारी रखने की अनुमति है, जैसा कि वे उचित समझते हों।
- इनडोर व्यवसायों और स्थानों के लिए जहां उपस्थित सभी लोगों का **पूरी तरह से टीकाकरण** नहीं हुआ हो, बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों को चेहरा ढंकना चाहिए और छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्थानों में फेस कवरिंग और / या सामाजिक दूरी की जरूरत बनी रह सकती है। बाहरी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्थानों में, वैक्सीन रहित लोग, बाहर रहने के दौरान छः फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम होने पर फेस कवरिंग न पहनने का विकल्प चुन सकते हैं जब तक एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान या नगरपालिका के अनुसार ऐसा करने की जरूरत नहीं हो।
- हालांकि जिन लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हें राज्य के मार्गदर्शन के अनुसार चेहरा ढंकने की आवश्यकता नहीं है, व्यवसायों और स्थानों को उन ग्राहकों और कर्मचारियों का समर्थन करना चाहिए जो चेहरे को ढंकना चुनते हैं।
- जिन व्यक्तियों की प्रतिरक्षण क्षमता कम है, उन्हें ऐसे परिवेश में जहां हो सकता है कि अन्य लोगों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया हो, फेस कवरिंग पहनने पर विचार करना चाहिए।
- सभी वैक्सीन रहित लोगों को, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, अन्दर और बाहर दोनों जगह, खास तौर पर जब नौजवान लोग मौजूद हों, फेस कवरिंग पहननी चाहिए। अतिरिक्त जानकारी के लिए [CDC मार्गदर्शन](#) देखें।
- ऐसी सीमित परिस्थितियाँ और सेटिंग्स हैं जहाँ सभी व्यक्तियों, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, को [CDC मार्गदर्शन](#) के अनुसार मास्क पहनना जारी रखना चाहिए: (1) सार्वजनिक परिवहन पर, (2) मंडली सुविधाओं में, (3) स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में, और स्थानीय व्यापार और कार्यस्थल मार्गदर्शन सहित संघीय, राज्य, स्थानीय, जनजातीय, या क्षेत्रीय कानून, नियमों और विनियमों द्वारा आवश्यक है।
- स्कूलों, डे केयर सेटिंग्स और शैक्षणिक संस्थानों में व्यक्तियों को इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज और इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी अलग-अलग मार्गदर्शन का पालन करना जारी रखना चाहिए।
- सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्थानों को यथासंभव हद तक सामाजिक दूरी का समर्थन करना चाहिए, खासकर इनडोर सेटिंग्स में। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्थानों को ऐसी जगहों पर जैसे कन्सेशन/काउंटर, सार्वजनिक शौचालय, और लाइनों/कतारों में दूरी बनाए रखने के मामले में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना चाहिए।
- इस मार्गदर्शन को CDC द्वारा जारी किए जाने वाले नए सुझावों के अनुसार अपडेट किया जाएगा और इसका मकसद, संघीय या स्थानीय मार्गदर्शन, सुरक्षा कानून, नियम, विनियम या व्यावसायिक सुरक्षा नीतियों का पूरक बनना है जिसके लिए स्पष्ट रूप से एक फेस कवरिंग और/या सामाजिक दूरी की जरूरत पड़ सकती है।

- COVID-19 सुरक्षा सम्बन्धी अपडेटेड संसाधनों, मार्गदर्शनों, और नियमों के लिए [CDC](#) और [IDPH](#) वेबसाइटों से परामर्श करना जारी रखें।